

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 623 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 नवम्बर 2018—अग्रहायण 3 शक 1940

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2018

फा. क्रमांक 5153-2018-21-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के विदिशा एवं होशंगाबाद जिले से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु, विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 12 नवम्बर 2018

क्र. क्यू-9-निर्वा.सा.-संशोधित प्रस्ताव-2018-3856.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक क्यू-9-निर्वा.सा.-प्रस्ताव-2018-2266, विदिशा, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 के संलग्न प्रस्ताव के सरल क्रमांक 9 पर श्री सुरेश खाण्डेकर, डी.पी.सी. जिला शिक्षा केन्द्र, विदिशा को विधान सभा क्षेत्र 144-विदिशा को सेक्टर ऑफिसर का प्रस्ताव विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हेतु भेजा गया था. जिसमें संशोधित करते हुए, श्री सुरेश खाण्डेकर के स्थान श्री मजहर खां, कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासोदा को नियुक्त किया गया है.

इसी प्रकार कार्यालयीन पत्र क्रमांक क्यू-9-निर्वा.सा.-प्रस्ताव-2018-2266, विदिशा, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 के संलग्न प्रस्ताव के सरल क्रमांक 199 पर एसएसटी हेतु, श्री राकेश भारती, बी.ए.सी. जनपद शिक्षा केन्द्र, सिरोंज का नाम भेजा गया था. रिटर्निंग ऑफिसर 147-सिरोंज के आदेश क्रमांक 587 सिरोंज, दिनांक 12 नवम्बर 2018 के अनुसार श्री राकेश भारती के स्थान पर श्री उमेश सोनी, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय कन्या उ.मा.वि., सिरोंज की ड्यूटी लगाई गई है.

**विधान सभा निर्वाचन 2018 सेक्टर ऑफिसर एवं एसएसटी को विशेष  
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हेतु प्रस्ताव**

स क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मजहर खान 9926057333	कार्यपालन यंत्री	संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग गंजबासोदा	द्वितीय	सम्पूर्ण जिले के लिए
2.	श्री उमेश सोनी 9826929036	वरिष्ठ अध्यापक	शास. कन्या उ.मा.वि., सिरोंज	तृतीय अराजपत्रित	सम्पूर्ण जिले के लिए

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,  
जिला विदिशा

**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश**

होशंगाबाद, दिनांक 8 नवम्बर, 2018

क्र. 3724-ई.एस.-निर्वा.-2018.—विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारियों की शक्तियां प्रदान करने हेतु, अधिसूचना जारी कर जिन अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदान की जाना है उनके अतिरिक्त प्रस्ताव भेजने के निर्देश हैं.

कृपया प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में होशंगाबाद जिले में अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. नियुक्त अधिकारी को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदान की जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :-

**सेक्टर मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त प्रस्तावित नाम**

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	जिस क्षेत्र के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अनिल पीपरे	कार्यपालन यंत्री	तवा केनाल डिवीजन सिवनीमालवा	प्रथम	विधान सभा क्षेत्र-139 पिपरिया

उपरोक्त तालिका में दर्शित नियुक्त अधिकारी को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त किये जाने का कष्ट करें.

होशंगाबाद, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. 4132-ई.एस.-निर्वा.-2018.—विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारियों की शक्तियां प्रदान करने हेतु, अधिसूचना जारी कर जिन अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदान की जाना है उनके अतिरिक्त प्रस्ताव भेजने के निर्देश हैं।

कृपया प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में होशंगाबाद जिले में एफएस टीम एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के निम्नानुसार अतिरिक्त अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदान की जाने हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार हैं :—

## अतिरिक्त प्रस्तावित नाम सूची

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	जिस क्षेत्र के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री मदन सिंह बारस्कर	राजस्व निरीक्षक	तहसील इटारसी	तृतीय	सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 FST
2.	श्री कमलेश मिश्रा	सहायक अधीक्षक	भू-अभिलेख होशंगाबाद	तृतीय	सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 FST
3.	श्री पी. आर. कनाते	सहायक यंत्री	लोक निर्माण विभाग होशंगाबाद	द्वितीय	सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र सिवनीमालवा-136 Sector Magistrate

उपरोक्त तालिका में दर्शित नियुक्त अधिकारी को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त किये जाने का कष्ट करें।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,  
जिला होशंगाबाद.